

## SURAJ PRODUCTS LIMITED

Registered Office & Works:

CIN: L269420R1991PLC002865

Vill.: Barpali, P.O.: Kesramal, Rajgangpur, Dist.: Sundargarh, Odisha, India, P.IN: 770017 Tel: +91-94370 49074, e-mail: info@surajproducts.com, suproduct@gmail.com www.surajproducts.com

Date: August 12, 2024

The Secretary
Bombay Stock Exchange Limited
(Department of Corporate Services)
Floor 25, P.J.Tower, Dalal Street
Mumbai – 400001

Dear Sir,

Subject: Submission under Regulation 47 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We are enclosing herewith copies of newspaper cutting published pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as detailed herewith:

Paper cuttings of "Business Standard" (English Newspaper & Hindi) published on August 12, 2024 and Utkal Mail (Oriya News Paper) published on August 12, 2024 regarding publication of outcome of Board Meeting held on 10<sup>th</sup> day August, 2024 and unaudited Financial Results of the Company, for the quarter ended June 30, 2024. Copy of newspaper cutting in this connection is attached.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours Faithfully For Suraj Products Limited

A.N.Khatua Company Secretary

Encl. as above

Copy to:

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range, Kolkata – 700001

For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link www.sebi.gov.in. For issue related grievance investors may contact: Horizon Manage Private Limited - Manav Goenka (+91 33 4600 0607) (Email Id: investor.relations@horizon.net.co).

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE

Horizon Management Private Limited

Hortzon Management Private Limited
19 R N Mukherjee Road, Main Building,
2nd Floor, Kolkata- 700 001 West Bengal, India.
Telephone: +91 33 4600 0607
Facsimile: +91 33 4600 0607
Email ID: smeipo@hortzon.net.co

Website: www.horizonmanagement.in Investor Grievance ID:

vestor.relations@horizon.net.co Contact Person: Manay Goenka SEBI Registration Number: INM000012926 REGISTRAR TO THE ISSUE LASSS .

MAS Services Limited T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi -110 020, Delhi, India;

inola; Telephone: +91 112 638 7281/83 Facsimile: +91 112 638 7384 Email ID: info@masserv.com Website: www.masserv.com

Investor grievance: vestor@masserv.com Contact Person: N C Pal SEBI Registration: INR 000000049 Validity: Permanent COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

FORCAS STUDIO LIMITED

Sangita Kumari Agarwal, Company Secretary and Compilance Officer Tara Maa Tower, B3-71C/161 B B T Road, Vivekananda nata waa Tower, B3-7 (2) 161 B B 1 Road, Wwekanariadpur,
South 24 Parganas, Thakurpukur Mahestola -700 141, West
Bengal, India. | Tel: +91 332 950 1056
Email: info@focasstudio.in | Website: www.focasstudio.in
CIN: U14101WB2024PLC267500

Company Secretary and Compliance Officer, the BRLM and/or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-issue related problems such as non-receipt of letter of Allottent, credit of Allotted Livity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of funds by electronic mode etc.

ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: Axis Bank Limited

LINK TO DOWNLOAD RED HERRING PROSPECTUS: https://www.focasstudio.in/wp-content/uploads/rhp.pdf

UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

PRICE INFORMATION AND THE TRACK RECORD OF THE PAST ISSUES HANDLED BY THE BRLM

Price Information of past issues handled by the Book Running Lead Manager

SME

Sr. No.	Issue Name	Issue size (₹ In Cr.)	Issue Price (₹)	Listing date	Opening price on listing date	on closing % change	nge in Price price, [+/- in closing 30th calendar n listing*	on closing % change	nge in Price price, [+/- in closing 90th calendar n listing*	+/- % char on closing % change benchmar calendar days	price, [+/- in closing k]- 180th
1.	Cosmic CRF Limited	57.21	314	June 30, 2023	251.20	-17.17%	2.80%	-21.66%	1.71%	95.86%	11.31%
2.	Baba Food Processing (India) Limited	32.88	76	November 15, 2023	76.00	-11.58	7.66%	-27.04%	NA	NA	NA
3.	MVK Agro Food Product Ltd	65.88	120	March 7, 2024	79.00	-56%	0%	-66%	3%	79	-56%
4.	Shree Karni Fabcom Limited	42.49	227	March 14, 2024	260.00	101%	2%	207%	5%	260	101%
4.		42.49	227		260.00	101%	2%	207%	5%		260

	5.	Veritaas Advertising Limited	8.48	114	May 21, 2024	275.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ī	6.	Tunwal E-Motors Limited	124.12	59	July 23, 2024	64	NA	NA	NA	NA	NA	NA

ımmary Statement of Disclosur

Financial		Total Funds	disco	of IPOs tra unt - 30th from listin	calendar	prem	of IPOs tra ium - 30th from listin	calendar	discou	of IPOs tra int - 180th from listin	calendar	premiu	of IPOs trac ım – 180th ı from listing	calendar
Year	of IPOs	Raised (₹ in Cr.)	Over 50%	Between 25-50%	Less than 25%	Over 50%	Between 25-50%	Less than 25%	Over 50%	Between 25-50%	Less than 25%	Over 50%	Between 25-50%	Less than 25%
2023-24	4	198.46	Nil	Nil	2	Nil	1	Nil	Nil	Nil	Nil	1	Nil	Nil
2024-25	2	8.48	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Break -up of past issues handled by Horizon Management Private Limited														

Financial Year

noues:
In the event any day falls on a holiday, the pricelindex of the immediate preceding working day has been considered. If the stock was not traded on the said calendar days from the date of all listing, the stare price is taken of the immediately preceding trading day.

2. Source: www.benida.com and www.senida.com

2. Source: www.bseledia.com and www.nseledia.com
Track record of past issues handled by the Book Running Lead Manager
For details regarding the track record of the Book Running Lead Manager to the Issue as specified in Circular reference CIR MIRSD/1/ 2012 dated January 10,
2012 issued by the SEBI, please refer the website of Lead Manager at www.bo/roommanagement.in.
All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.
For FORCAS STUDIO LIMITED
SAL

Place: Kolkata Date: August 10, 2024

Disclaimer: Forcas Studio Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Stares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal, an August 9, 2024, and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The RHP is available on the website of SEBI at www.sebi gov.in, NSE at wavenserinds come and is available on the website of SEBI at wavenserinds come and is available on the website of the BRLM at www.hortzommanagement in. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Red Herring Prospectus.

Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction and subject to, her registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in offstore transactions in relance on Regulation 'S' under the Securities Act and the applicable laws of each united States are made. There will be no public offering in the United States.

FORM NO. NCLT. 3A Advertisement detaille -

Advertisement detailing petition [see rule 35]
BEFORE THE ARTIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, KOLKATA BERCH, KOLKATA COMPANY LAW TRIBUNAL, KOLKATA BERCH, KOLKATA COMPANY PAPLICATION (CAM, NO.175/KB/2023 in the Master of:
BENGAL SRIJAN PROJECTS PRIVATE LIMITED, having its Registered Office at 3811A Elgin Road, Kokkata - 100/2025.

700020; SRIJAN REALTY PRIVATE LIMITED, having it Paristered Office at 36/1A, Elgin Road, Kolkata

FORM NO. NCLT. 3A

FORM NO. NOLT 2M.
Advantisement detailing petition
BEFORE THE MITCHAL COMPANY LAW
TERRIBANAL (FOLKAR REPORT FOR MITCHAL
COMPANY TERRIBANAL COMPANY LAW
TERRIBANAL COMPANY TERRIBANAL COMPANY LAW
TERRIBANAL COMPANY TERRIBANAL COMPANY LAW
TERRIBANAL COMPAN

MOTICE OF PETTION

Applications and execution of the Companies of Academy and Academ

G008/2024 (SDJ-Kolkata RADHIKA PATODIA Parine MAROTI & ASSOCIUNTAMTS CHARTERED ACCOUNTAMTS (Strand Road, Diamond Heritage Building Floor, Room No. N-503, Kolkata - 70000\*

Advertisement detailing petition [see rule 35]
BEFORE THE KNITOMAL COMPANY LAW TRIBUNAL, KOLKATA BENDH, KOLKATA COMPANY PETITION (CAA), NO.1318/BI2020 Comected with COMPANY PETICATION (CAA), NO.1218/BI2020 In the matter of:

JIDN COMMERCEAL PRIVATE LIMITED, having Registered Office at Dismond Heritage, 16 Stra

Registered Office at Diamond Herita Road, 10th Floor, Room No. 1012, Kol P. K. AGRI LINK PRIVATE LIMITE Registered Office at Vill - Iswarpur, Pt

having its registered Office at VIII - Iswarpur Ahmedpur, Dist - Birbhum, Ahmedpur-731201 HALDER VENTURE LIMITED, havin

### NOTICE OF PETITION order section 232 of the Cor

NOTICE OF PETTION

MOTICE OF PETTION

MOTICE OF PETTION

MOTICE OF PETTION

AND COMMERCIAL PROMITE LINE OF THE COMMERCIAL PR

Form No. INC – 26 [Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation). Rules, 2014] Before the Central Government, Regional Director (Eastern Region the matter of sub-section (9) Section 13 of Companies Act, 201 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

Companies (municipality Rules, 2014
AND
the matter of Mis. Aloke Trading
\$ investment Private Limited
(in the private Limited)
(in the Companies Allowers)
(in the Com

ALOKE TRADING & INVESTMENT PRIVATE LIMITED

Date: 12.08.24 Place: Kolkata

CIN: U65999WB2007PTC121195) 1, Strand Road, Kolkata, West Beng 700 006 - 700 006 For and on behalf of Aloke Trading & Investment Private Limited

d Sd/-Aloke Thakore Director DIN: 01447733

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, HYDERABAD BENCH, AT HYDERABAD

C.P (CAA).No.24/230/HDB/2024 Connected with CA (CAA) No. 20/230/HDB/2024

CA (CAA) No. 20/230/HDB/2024
In the matter of the Companies Act, 2013
And
In th matter of M/s EMTA. Elaboratorise Private Limited
(Transferror Company)
In the matter M/s Winter Labs Limited
(Transferror Company)
In the matter M/s/min Labs Limited
(Transferror Company)
Their respective Shareholders and Creditors
M/s EMTAC Laboratorise Private Limited
a company incorporated under the Companies Act,
2013 and having its registered office at Plot No. 11/6,
Road No. 9, 10A, Nacharam, Rangareddi,
Hyderabad, Telangana, India-500076
Represented by Isc Company Secretary
Smt Sujani Vasireddi
... 1st Petitioner/ Transferor Company

... 1st Petitioner/ Transferor Compar

And M/s Vimta Labs Limited

M/s Vimta Labs Limited
a company incorporated under the Companies Act,
1956 and having its registered office at 141/2 & 142,
10A Phase II, Charlapalli, R.District, Hyderabad500 051, Telangana, India.
Represented by its Managing Director
Smt Harita Vasireddi

#### NOTICE OF PETITION

NOTICE OF PETITION

A Joint Company Petition under Sections 230 to 232 of
the Companies Act, 2013 and other applicable provisions
of the Companies Act, 2013 for ancion of the Scheme for
Amalgamation of Mys ENTAC Laboratories Private
Limited, (First Petitione/Tinarfetic Company) with
Limited, (First Petitione/Tinarfetic Company) and
Company) and their respective Shareholders and
creditions was presented by the Petitioner Company or
26.07.2024 and admitted on 02.08.2024 and the said
petition is fixed for hearing before the hor Die National
or 25.07.2024 for hearing before the hor Die National
or 25.07.2024 for hearing before the nor Die National
or 25.07.2024 for hearing before the company of the Company
or 25.07.2024 for hearing before the company of the Company
or 25.07.2024 for hearing before the company of the Company
or 25.07.2024 for hearing the Compan

on 23,09.2024.

Any person desirous of supporting / opposing the said petition should send to the petitioner's advocates, notice of his/her intention, signed by him/her or his/her advocate, with his/her name and address, so as to reach the petitioner's Advocate not later than two days before the date fixed for the heaving of the petition. Where he/she seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his/her affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition will be asset to a copy of the petition will be same on payment of the prescribed charges for the same. Dated: 07.08.2024

50/-V.B.RAJU Counsel for Petitioners, Address: No.106, Dhanunjaya Towers, Road No.1, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034. Ph: 9849120947; Email: officevsraju@gmail.com

CORRIGENDUM TO FORM G (Published on 23-07-2024)
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR
MS RAJAGRIA TIMBER PRIVATE LIMITED in CIRP
maximize the value of the Coponate Debtor & Stakeholder, the committee
is meeting held on 08-08-2024 has decided to extend the timeline for
copression of interest and accordingly evision timeline is as under.

SI No.	Particulars	Old	Revised
1.	Last date for receipt of expression of interest	07th August, 2024	17th August, 2024
2.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	17th August, 2024	23rd August, 2024
3.	Last date for submission of objections to provisional list	22nd August, 2024	28th August, 2024
4.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	01st September, 2024	01st September, 2024
5.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	06th September, 2024	06th September, 2024
6.	Last date for submission of resolution plans	06th October, 2024	06th October, 2024

All other process, terms & Conditions et cremaria: unchanged.

The FORM G dated 23-07-2024 was published under authority & signature of e-IRF Mr. Anil Agarwal, IBBVIPA-001IP-P00270/2017-018105141-A.

Sanjai Kumar Gupta, an insolvency Professional IBBVIIPA-001IP-P00592201701811055 has been appointed as Resolution Professional in the CIRP Rajgarie Timber Private Limited vide order dated 23-07-2024 of Hon ble NCLT, Kolkata Benci uploaded on 28-07-2024.

PUBLIC NOTICE

MOTOC OF PETTION.

MOTOC OF PETTION.

AND CONTROL OF COMPANIES AND CONTROL OF COMPANIES AND CONTROL OF COMPANIES AND CONTROL OF COMPANIES AND CONTROL OF C Sdi- Sanjai Kumar Gupta, Resolution Professional For Rajgaria Timber Private Limited in CIRB (BBIIPA-001/IP-P0055/22017-018/11045 5A, Akma, 27A, Bagmari Road, Kolkata-700054 AFA Valid Upto: 19th November, 2024 rajgarlatip

PUBLIC NOTICE

OUTPUT TO THE TO THE CONTROL OF THE TOTAL OF THE CONTROL OF THE CO

## Partner MAROTI & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTS

SURAJ PRODUCTS LIMITED CIN No.: L26942OR1991PLC002865 Regd. Office: At-Barpali, PO: Kesaramal, Rajgangpur, Dist.: Sundargarh, Odisha - 770017 Email: suproduct@gmail.com, Web: www.surajproducts.com

Email: suproduct@gmail.com, Wab: www.surajproducts.com

BOARD MEETING OUTCOME

Board of Directors of the Company at their meeting held on Saturday, the 10<sup>th</sup> day of August, 2024 at the registered office of the Company have approved the following:

1. Board has approved the bildward of famicial results of the Company for the quarter ended 30.05.2024.

1. Board has approved the benefice Report & Report on Composine Government for the famicially pare ended 31<sup>th</sup> March, 2024.

2. Board has reproved the Poince Report & Report on Composine Government for the famicially pare ended 31<sup>th</sup> March, 2024.

3. Board has reproved the Application of the Composine Government for the famicially pare ended 31<sup>th</sup> March, 2024.

4. Board has fixed the date for Fook Closure. The Register of Members and Share Transfer Book of the Company will be closed from September 20, 2024 to September 27, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Dividend & Annual General Meeting.

5. Board has approved the approximent of Mis L. Ny-Rand & Associations, Roursela, Oddhas as the scruminger for e-voting process to be conducted for the purpose of the 33<sup>th</sup> Annual General Meeting.

7. The e-voting will commence from Tuesday, the 24<sup>th</sup> September, 2024 at 9.00 AM and will end on Thursday, the 26<sup>th</sup> September, 2024 at 5.00 PM. By order of the Board

Place: Barpali Date: 10<sup>th</sup> day of August, 2024

Sd/-A.N.Khatua Company Secretary

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024

				₹ in Lac			
		Quarter ended					
SI.	Particulars	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023			
""		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)			
1	Total Income from Operations	9,269.47	9,238.36	11,140.13			
2	Net profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	844.46	809.92	1,142.73			
3	Net profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary item)	844.46	809.92	1,142.73			
4	Net profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and or Extraordinary items)	670.78	582.20	839.00			
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	670.78	584.46	839.00			
6	Equity Share Capital	1,140.00	1,140.00	1,140.00			
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)						
	Basic (Rs.):	5.88	5.11	7.36			
	Diluted (Rs.):	5.88	5,11	7.36			

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Oil/gations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website under "investor Replations" section at www.unignotucts.com and on the Stock Exchange website (www.besindis.com). The Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review of the results for the quarter ended June 30, 2024, These results have been prepared in accordance with the find AS position dunder the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meetings held on 10° August, 2024.

Sions have also been made.

On behalf of the Board of Directors
Crown Lifters Limited
Karim K Jaria
Chairman & Managing Director
Din: 00200320

## CROWN LIFTERS

### **CROWN LIFTERS LIMITED**

	STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTE	R ENDED	DN JUNE 3		
				(	Rs. In Lakhs
Sr.			uarter Ende		Year Ended
	Particulars	30-06-2024	31-03-2024	30-06-2023	31-03-2024
No		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	793.30	1076.49	523.14	2,886.78
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax & Exceptional Items)	233.90	375.29	117.09	738.00
3	Net Profit / (Loss) for the Period before Tax (after Exceptional Items)	1461.94	375.29	117.09	738.04
4	Net Profit / (Loss) for the Period after Tax (after Exceptional Items)	1095.66	188.04	117.09	550.79
5	Total Comprehensive Income [Comprising Profit / (Loss) after Tax and Other Comprehensive Income after Tax]	1095.66	188.04	117.09	550.79
6	Equity Share Capital	1122.33	1122.33	1041.00	1122.33
7	Reserves excluding Revaluation Reserve as at Balance Sheet date	3580.62	2484.96	1189.15	2484.96
8	Earnings Per Share (of Rs. 10 each, in Rs.)				
Г	Basic	9.76	1.80	1.12	5.28
	Diluted	9.76	1.80	1.12	5.28

1) The company has adopted indian Accounting Standards (Ind AS) notified by the Ministry of Corporat transition date of 1st April (2016 and accordingly these financial results have been prepared in accordingly these financial results have been prepared in according to the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies and relevant amendment rules thereafter.

The above results are reviewed by statutory auditor and Audit Committee of the completed on 10th August, 2024. mount in une magast, ZLC4.
The figures of the quarter ended on 31 st March, 2024 represent the balancing figures between audited figures in respect of full financial year and unasaffied published figures up 99 months of the relevant financial year.
Periodus prefer figures have been regrouped/reclassified rearranged wherever necessary to make them comparable to figures of the curmention.

. The company does not have more than one reportable segment in terms of AS-17 issued by ICAI hence Segment wise reporting is not applicable

The Company has been desired and an interrept case are greater in the residence of the Company has been desired as an interrept case are greater in the residence of Residence of

Place : Mumbai Date : 10-08-2024

Place: Barpali Date: August 10, 2024

### र संक्षेप में

### गोदरेज प्रॉपर्टीज की नजर बिक्री बुकिंग बढ़ाने पर

रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज ने मजबूत उपभोक्ता मांग के बीच चालू वित्त वर्ष में बिक्रो बुकिंग में 20 प्रतिशत की बृद्धि हासिल करने के लिए प्रमुख शहरों में मार्च, 2025 तक 21,000 करोड़ त्रपुख संरक्ष न नाच, 2023 तम 21,000 नत्रज्ञ रुपये मूल्य की आवासीय परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन पिरोजशा गोदरेज ने विश्वास जताया कि कंपनी चाल वित्त वर्ष में 27,000 करोड़ रुपये की बिक्री बुकिंग का लक्ष्य हासिल कर लेगी। बीते वित्त वर्ष (2023-24) में कंपनी की बिक्री बुकिंग 84 प्रतिशत उछाल के साथ रिकॉर्ड 22,527 करोड़ रुपये रही थी। यह पिछले वित्त वर्ष में सभी सूचीबद्ध रियल्टी कंपनियों में सर्वाधिक था।

### रिलायंस इस वर्ष चाल करेगी सौर गीगा-फैक्टरी

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में अपनी पहली सौर गीगा-फैक्टरी चालू करने की योजना बना रही है। कंपनी वर्ष 2035 तक परिचालन से शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के शा में बढ़ रही है।रिलायंस ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि उसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक सौर फोटोवोल्टिक विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण को चालू करना और 2026 तक चरणबद्ध तरीके से इसे 20 गीगावॉट तक बढ़ाना है। परंजबद्ध (रास्क स इस 20 गांगाजाट (राक बढ़ाना है। सौर गींगा-फैक्टरी में एक ही स्थान पर पीवी मॉड्यूल, सेल, वेफर्स और सिल्लियां, पॉलीसिलिकॉन और ग्लास का निर्माण होगा। *भाषा* 

### त्योहारी सीजन के मद्देनजर वाहन विनिर्माताओं ने की तैयारी

# नए वाहनों की योजना को रफ्तार

अजिल सिंह मुंबई, 11 अगस्त

र भर में चूंकि त्योहारी माहौल शुरू हो रहा है। इसलिए वाहन विनिर्माताओं ने भी बाजार में नए वाहनों की श्रृंखला उतारने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वतंत्रता दिवस करीब आने के साथ ही कई प्रमख ब्रांड उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने नवीनतम मॉडल पेश करारे अपने नेपानतम माइस परा करने जा रहे हैं। महिंद्रा अपनी बहुप्रतीक्षित थार रॉक्स ला रही है, जो इसकी लोकप्रिय ऑफ्-रोडर का विशेष संस्करण है। उम्मीद है कि इसमें बेहतर ऑफ-रोड की खूबियां होंगी। थार रॉक्स को एडवेंचर प्रेमियों की कार के रूप में पेश किया गया है। इसके साथ ही सहिंद प्रतिष्ठित बीएसए गोल्ड स्टार बाइक को फिर से पेश करने की तैयारी में है, जिसमें पुराने आकर्षण का आधुनिक प्रदर्शन के

भारतीय मोटरसाइकल बाजार की अन्य दिग्गज रॉयल एनफील्ड नई क्लासिक 350 को पेश करने की तैयारी कर रही है। अपने सदाबहार डिजाइन और मजबूती के लिए प्रसिद्ध क्लासिक 350 मोटरसाइकल प्रेमियों के बीच पसंदीदा रही है और इस नए संस्करण में



स्वतंत्रता दिवस करीब आने के साथ ही कई प्रमुख ब्रांड उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने नवीनतम मॉडल पेश करने जा रहे हैं।

मौजूदा अपग्रेड के साथ रेट्रो आकर्षण का संयोजन होने का वाटा किया गया है। इस महीने की शुरुआत में टाटा मोटर्स ने मध्य स्तर की एसयूवी श्रेणी में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी कवं उतारकर सुर्खियां बटोरीं थीं। उम्मीद की जा रही है कि यह मॉडल मध्य स्तर वाली एसयवी श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करेगा और धारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। इस महीने की शुरुआत में रॉयल एनफील्ड ने गुरिल्ला 450 पेश की थी, जो एडवेंचर के शौकीनों के लिए जाइन किया गया नया दमदार मॉडल

एमजी मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए तीसरे इलेक्ट्रिक वाहन का ऐलान किया है। सितंबर के मध्य में आने वाला यह नया मॉडल - विंडसर क्लाउड ईवी प्लेटफॉर्म पर आधारित है। एमजी ने रियर सीट का शानदार पैकेज पेश किया है, जो इस बात का संकेत है कि यह ईवी आराम और तकनीक को प्राथमिकता देगा जो बांड़ के प्रीमियम स्थान के अनुरूप होगा। उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि

नए मॉडल पेश करने की ये ताबडतोड योजनाएं इस्तेमाल और नवाचार के लिए उत्सुक गतिशील बाजार को दर्शाती है।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के निदेशक (इक्विटी शोध) रघुनंदन एनएल ने कहा कि त्योहारी सीजन से पहले सामहिक पेशकश हर बार का रझान है। उन्होंने कहा 'इस अवधि के दौरान इस तरह की पेशकरों असामान्य नहीं हैं और साल-दर-साल लगातार सामने आती रहती हैं। हालांकि हाल ही में महत्वपूर्ण मॉडल पेश किए गए हैं, लेकिन इस साल जून से अगस्त या सितंबर तक पेश किए गए मॉडलों की कुल संख्या पिछले साल की तुलना में बहुत अलग नहीं है। हाल में पेश किए गए ज्यादातर वाहन सामान्य हैं, जिनमें टाटा कर्व और महिंद्रा एक्सयूवी 3 एक्सओ जैसे कुछेक सार्थक वाहनों को छोड़कर कोई बहुत बड़ा फेर-बदल करने वाला मॉडल नहीं है।

त्योहारी सीजन के करीब आने की वजह से उपभोक्ता सभी श्रेणियों में कई नए मॉडलों की उम्मीद कर सकते हैं।

### इस त्योहारी सीजन में तेज डिलिवरी पर ध्यान

इस त्योहारी सीजन में परंपगगत र्ट. कॉमर्स कंपनियों की तुलना में तीव्र डिलिवरी बाजी मार सकती है। टीमलीज की रिपोर्ट के अनुसार आगामी त्योहारी सीजन के दौरान ई-कॉमर्स उद्योग की बिकी में 35 प्रतिशत का इजाफा होने वाला है। हालांकि इस बात का पता नहीं

चल पाया है कि इस 35 प्रतिशत में से क्विक कॉमर्स कंपनियों की कितनी बिक्री रहेगी, लेकिन प्रमुख डिलिवरी साझेदार जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं, उससे मजबूत वृद्धि का संकेत मिलता है।

फ्लिपकार्ट की 'मिनट्स' की शुरुआत की वजह से भी क्विक कॉमर्स श्रेणी में तेजी आई है। अक्टूबर में अपने भावी प्रमुख सेल कार्यक्रम - बिग बिलियन डेज 2024 से पहले कंपनी कृथित तौर पर सभी प्रमख शहरों में लगभग 100 डार्क स्टोर खोलने की योजना बना रही है। ब्लिंकडट की योजना साल

2026 के अंत तक डार्क स्टोर संख्या 2.000 तक करने की है। फिलहाल यह संख्या 639 है। कंपनी ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में ही 113 डार्क स्टोर जोडे



हैं और इस बात की उम्मीद है कि ब्लिंकइट इस त्योहारी सीजन से पहले सितंबर तिमाही में भी इतनी ही

संख्या में स्टोर शुरू करेगी। जून में जेप्टो ने मार्च 2025 तक डार्क स्टोर की संख्या बढ़ाकर 700 तक करने की योजना का ऐलान किया था। वर्तमान में यह संख्या 350 है। इसे स्तर तक पहुंचने के लिए इसे हर तिमाही में लगभग 80

स्टोर जोड़ने होंगे। शिपरॉकेट, ईकॉम एक्सप्रेस और एक्सप्रेसबीज जैसे डिलिवरी साझेदारी तथा लॉजिस्टिक्स साझेदारी तथा लॉजिस्टिक्स यूनिकॉर्न भी तीव्र डिलिवरी की पूर्ति करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए शिपरॉकेट ने दिल्ली-एनसीआर, बेंग्लूर, मुंबई, चेन्नई, केरल, हैदराबाद और पुणे सहित प्रमुख शहरों में शिपर्सिट क्विक सेवा की शुरुआत की है। यह सेवा अगले 30 दिनों में कई शहरों में शुरू की जाएगी।

प्रतिशत या उसके आसपास रहेगी।

जैटो डायनमिक्स के अध्यक्ष और निदेशक रवि भाटिया ने कहा,

जैटो डायनमिक्स के आंकडों से

साफ पता चलता है कि महामारी के सुधार हुआ लेकिन अब वाहन बाजार में मंदी का रुख है। वित्त वर्ष

2023 में सालाना आधार पर 26.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के

बाद हमने बड़ी गिरावट देखी है।

वित्त वर्ष 2024 में यह वृद्धि घटकर 8.7 प्रतिशत हो गई जबकि अनुमान संकेत दे रहे हैं कि वित्त वर्ष

2025 में केवल 0.8 प्रतिशत की वृद्धि होगी।'

### हाइब्रिड कारों को मिलती रहेगी पंजीकरण कर से छट

एआई आने से कारोबारों का साइबर जोखिम बढ़ा : कैस्परस्काई

**आर्टिफिशल इंटेलिजेंस** (एआई) को तेजी से अपनाने से वृद्धि को बढ़ावा मिला है, लेकिन इसके साथ साइबर

अपराधियों के लिए भी परिष्कृत हमलों में एआई का दुरुपयोग करने के रास्ते खुल गए हैं। वैश्विक साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्राइवेसी कंपनी केस्परस्काई ने इन जोखिमों का जिक्र करते हुए कहा है कि उसने नए युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यवसायों के सिक्रय साइबर सुरक्षा में निवेश करने की जरूरत पर प्रकाश डाला है।

कैस्परस्काई ने कहा कि वह अपने उत्पादों में एआई का समावेश कर रही है तथा खतरों का मकाबला करने तथा

कई उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध स्वचालित हमले करने के लिए नए तरीकों से एआई का उपयोग कर रहे हैं।

दीपक पटेल और वीरेंद्र सिंह रावत नई दिल्ली/लखनऊ, 11 अगस्त

रविवार को भारत की प्रमुख कार विनिर्माताओं के साथ एक घंटे तक चली बैठक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्लग इन और हाइब्रिड कारो पर मिलने वाली पंजीकरण कर छूट वापस लेने की

उसकी कोई योजना नहीं है। बैठक में मौजूद सरकार और उद्योग के सूत्रों ने कह कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनीज कुमार सिंह ने कंपनियों को बताया कि प्लग इन और हाइब्रिड कारों को प्रोत्साहन का मकसूद पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों की विक्री कम करनी है न कि इलेक्ट्रिक वाहनों की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा, 'पेट्रोल-डीजल वाली कार के बदले ग्राहक हाइब्रिड कार खरीदेगा।' बीते 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड और

प्लग इन कारों पर 8 से 10 फीसदी तक लगने वाले पंजीकरण कर को माफ करने का आदेश दिया था।इससे इन कारों की ऑन रोड़ कीमतों में 4 लाख रुपये तक की कमी आई। बैठक में 8 कंपनियों-टाटा मोटर्स, हांडै किआ, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, मारुति सुजूकी, टोयोटा होंडा और बजाज के प्रतिनिधि मौजूद थे।

हाडा आर बजाज के प्रातानाध माजूद था बैठक के दौरान टाटा मोटर्स, ह्युंडै, कि आ और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा ने 5 जुलाई के आदेश का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि भारत के सबसे बड़े कार बाजारों में से एक उत्तर प्रदेश में उभरते इलेक्टिक कार उद्योग को पूरे ध्यान और समर्थन की जरूरत है। उन्होंने चिंता जताई कि इस वक्त प्लग इन और हाइब्रिड कारों को प्रोत्साहित करने से इलेक्टिक कार खंड पर भारी अस-प्रतेगा। सूत्रों ने बताया कि इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कुछ अन्य देशों का उदाहरण दिया, जहां इलेक्ट्रिक कारों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

### हाइब्रिड कारें बन रहीं पसंदीदा विकल्पः लैंबोर्गिनी

दीपक पटेल नई दिल्ली, 11 अगस्त

ग्राहक अब इलेक्टिक कारों के मुकाबले हाइब्रिड कारों को तरजीह रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसके प्रदर्शन में कभी गिरावट नहीं आएगी। इटली की सुपर लक्जरी कार बनाने वाली कंपनी लैंबोर्गिनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

कंपनी के क्षेत्रीय निदेशक प्राप्ता का प्राप्ता । निप्ताक (एशिया-प्रशांत) फ्रांसेस्को स्कार्डाओनी ने कहा कि हाइब्रिड कार दोनों ईंधन विकल्पों (पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक) के साथ दोनों श्रेणियों में बेहतरीन पेशकश करते हैं। उन्होंने कहा पंजीकरण कर अथवा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में किसी तरह की कटौती होने से इस श्रेणी को लाभ मिलेगा।

पिछले साल दिसंबर में पहली प्लग इन हाइब्रिड सुपर कार रेवुल्तो पेश करने वाली इतालवी कार कंपनी ने शुक्रवार को उरुस एसई पेश की।

### यात्री वाहन बिक्री स्थिर रहने के आसार प्रतिशत की वृद्धि हो, लेकिन कुल वार्षिक बिक्री वृद्धि करीब पांच

सोहिनी दास मुंबई, 11 अगस्त

इस वित्त वर्ष में अब तक सुस्त वृद्धि की राह पर रहने वाली यात्री वाहन बिकी के बित्त वर्ष 2024-25 का समापन स्थिरता के साथ किए जाने की संभावना है। हालांकि ओईएम आगामी त्योहारी सीजन में बिक्री को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन विश्लेषकों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 25 में यात्री वाहन बिक्री में कुल वृद्धि 0.8 प्रतिशत या इसके आसपास सपाट रहेगी।

ारा तार समाद रहेगा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रबंध निदेशक शैलेश चंदा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि साल का समापन यात्री वाहनों की खुदरा विक्री में पिछले साल की 42 लाख (अब तक की सर्वाधिक) के मुकाबले दो से तीन प्रतिशत की कुल बढ़त के साथ होगा।

रा पढ़ा का कहना है कि साल की दूसरी छमाही में त्योहारी सीजन की वजह से वृद्धि देखने को मिलेगी। अभी तक वाहन बिकी को प्रभावित वाले किसी भी व्यापक



### वित्त वर्ष 25 में सपाट रहेगी बिक्री!

■ पिछले साल 42 लाख रही थी यात्री वाहन बिकी

■ ओईएम ने वित्त वर्ष 24 की तुलना में 2 से 3 प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान जताया **=** विश्लेषकों को लगता है कि

0.8 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर रहेगी वृद्धि दर

आर्थिक कारक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, चाहे वह जीडीपी वृद्धि के अनुमान हों, व्याज दरें हों या मुद्रास्फीति हो। उन्होंने कहा, 'अच्छे मॉनसून की धारणा से ग्रामीण मांग वापस आ गई है।डीलरों के पास पूछताछ भी स्थिर है।'

चंदा का कहना है कि वास्तविक रूप से पिछले साल की 42 लाख बिक्री के मुकाबले साल 2024-25 में सालाना आधार पर 2 से 3 प्रतिशत की वृद्धि संभव है। उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'इस

वित्त वर्ष में वाहन बिकी वृद्धि का

भार दूसरी छमाही पर रहेगा क्योंकि पहली छमाही मोचे तौर पर सपाट

रही है। भले ही वित्त वर्ष 25 की

दूसरी छमाही में बिक्री में 10

& रागा। बाजार अग्रणी मारुति का मानना है कि त्योहारी सीजन में काफी संभावनाएं हैं। कंपनी के वरिष्ठ मार्केटिंग अधिकारी पार्थ बनर्जी ने कहा कि हमने पहली तिमाही में सबसे अधिक कुल विक्री दर्ज की है जो कंपनी के इतिहास में पहली बार है। आगामी त्योहारों से नए अवसरों की संभावनाएं हैं। महिंद्रा ऐंड महिंद्रा का मानना है कि एसयवी सेगमेंट में मध्य से ऊंचे अंक में वृद्धि होगी।

### HALISAHAR NUNICIPALITY SHORT E-TENDER NOTICE ender No : WBMAQULB HM/SLDEPT-1 O: WBMACAULBHMS1-DEPT (2024-25) Dt.12.08.2024 : SUPPLY & DELMERY 4(Xur) M HYDRAULIC TIPPING TRALER OF HALISAHAR MUNICIPALITY

E-NOTICE INVITING TENDER NO 02/2024-25 and NO 03/2024-25 Sol Conservation-DPAP, Jhargram is inviting bids for "Supply of Portable Vermil Compost PIC, Construction of Dug well etc. in Jhargram District" Last date of submission of bid (online) 19/08/2024 and 20/08/2024 up to 4.00 respectively The tender document can be downloaded from

www.btenders.gov.in on 08/08/2024 after 6.30 pm Sd/-Assistant Director of Agriculture (Admn.) Soil Conservation-DPAP, Jhargram

ABRIDGED TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Tender No. WBPMIDGEHT/BDO/NT-3
(2nd Call/9/204-25, Dated: 9.98.2024

Ghatal Development Block invites e-Tender for the "Construction of Additional classroom at Snorageria pry school at Moraz. Srirangur, under Dewanchal-1 CP under Ghatal Block under Mainority Affairs fund". Intending bidders may access detailed information and respond from e-procurement portal of Government of West Bengal at https://wbtenders.gov.in. Bid submission start date (Online) 100.8.2024(10.00 A.M.). Bid Submission storing (Online) 24.08.2024 (6.00 P.M.). Sd/-Block Development Officer, Chatal at Paschin Medilipper. Sd/-Block Development Officer Chatal :: Paschim Mediniour

### Municipal Councill Sillod E- Tender Notice – 01 Year 2024-25 er in B-2/SBD Format is invited By Chief Of

Tender in B-2/SBU rountes seminated in B-2/SB

Sd/-Municipal Engineer Municipal Councill

#### SURAJ PRODUCTS LIMITED

CIN No.: L26942OR1991PLC002865
Regd. Office: At-Barpali, PO: Kesaramal, Rajgangpur, Dist.: Sundargarh, Odisha - 770017
Email: suproduct@gmail.com, Web: www.surajproducts.com

BOARD MEETING OUTCOME

Board of Directors of the Company at their meeting held on Saturday, the 10° day of August, 2024 at the registered office of the Company have approved the following:

Board of Directors of the Company at their meeting held on Saturday, the 10° day of August, 21/2+ at the regression of the Company for the quarter ended 30,06,2024.

1. Board has approved the birectors Report & Report on Compants Governance for the financial year ended 31" March, 2024.

2. Board has approved the Directors Report & Report on Compants Governance for the financial year ended 31" March, 2024.

3. Board has supproved the Notice convening the 33" Annual General Meeting to be held on Friday the 27" day of September, 2024.

4. Board has Keet the date for Book Closure. The Register of Members and Share Transfer Book of the Company will be closed from September 20, 2024 to September 27, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Dividend & Annual General Meeting.

5. Board has approved the appointment of Mis L.N.Panda & Associates, Rourfeld, Oldhan as the scrutinizer for e-voting process to be conducted for the purpose of the 33" Annual General Meeting.

6. Board has Rept the Cut-off date (record date) as 20" day of September, 2024 for the purpose of e-voting.

7. The e-voting will commence from Tuesday, the 24" September, 2024 at 9.00 AM and will end on Thursday, the 26" September, 2024 at 3.00 AM and will end on Thursday, the 26" September, 2024 at 3.00 AM and will end on Thursday, the 26" September, 2024 at 3.00 AM and will end on Thursday, the 26" September, 2024 at 3.00 AM and will end on Thursday, the 26" September, 2024 at 3.00 AM and will end on Thursday.

**Place:** Barpali **Date:** 10<sup>th</sup> day of August, 2024

Sd/-A.N.Khatua Company Secretary

# EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024

П	۱			Quarter ended	
ı	SI.	Particulars	(Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Unaud	30.06.2023	
ı			(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
ı	1	Total Income from Operations	9,269.47	9,238.36	11,140.13
ı	2	Net profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	844.46	809.92	1,142.73
ı	3	Net profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary item)	844.46	809.92	1,142,73
ı	4	Net profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and or Extraordinary items)	670.78	582.20	839.00
	5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	670.78	584.46	839.00
ı	6	Equity Share Capital	1,140.00	1,140.00	1,140.00
ı	7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			
ı		Basic (Rs.):	5.88	5.11	7.36
П		Diluted (Rs.):	5.88	5.11	7,36

Place: Barpali Date: August 10, 2024

es:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly. Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's weekled under Investor Felations's section at www.suraiproducts.com and on the Stock Exchange weekles (low-loseringle) and the Company have carried out a limited review of the results for the quarter ended June 30, 2024.
These results have been prepared in accordance with the lind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015.

ed in accordance with the Ind AS notified under the Companies (Indiar id by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Di By Order of the Board

Sd/-Y.K.Dalmia Managing Director (DIN-00605908)

### 'बिग फोर' कंपनियां कर रहीं टेक आर्किटेक्ट की नियुक्ति

नई दिल्ली. ११ अगस्त

वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) की संख्या में तेजी के बीच 'बिग फोर' (पेशेवर सेवा नेटवर्क की चार प्रमुख कंपनियां ) देश में टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट की नियुक्तियों में तेजी आकिटक्ट का निशुक्तवा में तेजा ला रही हैं, जो जीसीसी की सहायता करने वाले प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे की रूपरेखा तैयार करते हैं और

उनका प्रबंधन करते हैं। वर्तमान में 1,600 से ज्यादा जीसीसी के साथ भारत जीसीसी के साथ भारत विदेशी कंपनियों के लिए इन **जीसीसी में** पूरा करने के लिए डेलॉयट केंद्रों की स्थापना के मामले **तेजी के बीच** इंडिया के पास नियुक्ति की

में शीर्ष गंतव्य बन गया है। उठा रहीं ईवाई के अनुसार तेजी से बढ्ती अर्थव्यवस्था और अपेक्षाकत सस्ते मानव संसाधन की उपलब्धता की वजह से यह संख्या साल 2030 तक 2,400 तक पहुंचने की उम्मीद है। े डेलॉयट इंडिया की चीफ पीपल ऐंड एक्सपीरियंस अधिकारी दीप्ति सागर ने कहा, 'वे (टेक आर्किटेक्ट्स) कारोबारी जरूरतों को तुकनीकी खाके में तब्दील करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि समाधान कारोबारी लक्ष्यों के अनुरूप हों, जिसमें व्यापकता, सुरक्षा और दक्षता पर जोर दिया जाता है।'

ये आर्किटेक्ट भले ही सही मायने में तकनीकी विशेषज्ञ न हों. लेकिन कंपनियों की डिजिटल जरूरतों को वित्त और अनुसंधान एवं विकास जैसी अन्य जरूरतों के साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।

डेलॉयट इंडिया के पास 500 से ज्यादा ऐसे आर्किटेक्ट हैं और कंपनी का कहना है कि सलाह-मशविरा क्षेत्र के ग्राहकों में उनकी मांग बढ़ रही है। दीप्ति ने कहा 'हमारे ग्राहकों में आर्किटेक्ट की कुल मांग 20 से 25 प्रतिशत की दर से बढ़ने

के कारण इस बढ़ती मांग को दमदार योजना है।

देश में केपीएमजी के पार्टनर और प्रमुख (प्रौद्योगिकी रूपांतरण और दूरसंचार) पुरुषोत्तमन केजी ने कहा कि उन्होंने भी इन आर्किटेक्ट की नियक्तियां बढा दी हैं। उन्होंने कहा कि नियुक्ति की हमारी रणनीति क्षेत्र और प्लेटफॉर्म के आधार पर रही है। उन्होंने कहा कि किसी टेक

अर्किटेक्ट के पास ईआरपी प्लेटफॉर्म (एसएपी, औरेकल, माइक्रोसॉफ्ट) और क्लाउड प्लेटफार्म (माइक्रोसॉफ्ट, गूगल) तथा सेल्सफोर्स और सर्विसनाउ जैसे लो कोड सास प्लेटफॉर्म में

PUBLIC NOTICE
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN
This is to inform the General Public that following share co
Cement Limited having its Registered Office at Bangur Na
33, Beawar – 305901, Rajasthan, India registered in the na

#### PUBLIC NOTICE

Sd/-Ms. Kinjal Chheda- Advocate

#### PUBLIC NOTICE

TAKE NOTICE THAT OUT clients
A. H. Wadia Trust also known as
Kufla Estate; by its Notice date
2nd July, 2024 have terminated the
cases Deed dated 22nd April, 1955
Shri Veshvert Vinayak Bhatkhande
("Original Lossee") in respect of
property more particularly describe
in the Schedule herein under writter
(hereinatter referred to as "the said
Property").

Place:- Mumbai Dated:- 12th August, 2024

Sd/-Mr. Levi A. Rubens Advocates & Solicitors 104, Venkatesh Chambe Ghanshyam Talwarkar M Fort, Mumbai- 400 001.

Place: Barpali

#### **SURAJ PRODUCTS LIMITED**

Email: suproduct@gmail.com, Web: www.surajproducts.com

Board of Directors of the Company at their meeting held on Saturday, the 10th day of August, 2024 at the registered office of the Company have approved the following:

1. Board has approved the Directors Report is Report on Company for the quarter ended 30,06,2024.

2. Board has approved the Directors Report is Report on Company for the quarter ended 30,06,2024.

3. Board has approved the Directors Report is Report on Company for the quarter ended 30,06,2024.

4. Board has approved the Directors Report is Report on Company for the quarter ended 30,06,2024.

4. Board has fixed the date for Book Closure. The Register of Members and Share Transfer Book of the Company will be closed from September 20,0204 to September 20,020

Place: Barpali Date: 10<sup>th</sup> day of August, 2024

				₹ in La			
		Quarter ended					
SI. No.	Particulars	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023			
110.		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited			
1	Total Income from Operations	9,269,47	9,238,36	11,140.			
2	Net profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	844.46	809.92	1,142.			
3	Net profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary item)	844.46	809.92	1,142.			
4	Net profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and or Extraordinary items)	670.78	582,20	839.			
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	670.78	584.46	839.			
6	Equity Share Capital	1,140.00	1,140.00	1,140.			
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)						
	Basic (Rs.):	5,88	5,11	7,			

August, 2024.

15 days of this notice to the ned. Sd/R.P. Chaubey, Advocate

### District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai (1) City Malhotra House, 6th Floor, Opp. G.P.O., Fort, Mumbai - 400 001

FOR DEEMED CONVEYANCE OF

nan/Secretary, na Sagar CHS Ltd., Shahid Bhagat Singh Road, Colaba, Mumbai-400 00

... Applicant
J. M. C. Construction Company
J. M. C. Construction Company
J. M. C. House, Slejlo Memon Struet, Zaaveri Bazar,
M. M. C. House, Slejlo Memon Struet, Zaaveri Bazar,
M. M. C. House, Slejlo Memon Struet, Zaaveri Bazar,
M. M. C. M. M. Struet, Struet, Struet, Struet, Struet,
M. M. Struet, Str

#### DESCRIPTION OF THE PROPERTY

C.S. No. 2/59. Colaba Division, Shahid Bhagastingh Marg, Mumbai 400.005 admeasuring about 397.16 Sq. Meters or thereabouts together with the building standing/ constructed requested of conveyance by the Applicant Society

### BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, HYDERABAD BENCH, AT HYDERABAD


C.P (CAA).No.24/230/HDB/2024 Connected with CA (CAA) No. 20/230/HDB/2024

CA (CAA) No. (20/23/HD8/20/42
In the matter of the Companies Act, 2013
And
th matter of M/s EMTAC Laboratories Private Limited
(Transferor Company)
And
In the matter M/s Vinita Labs Limited
(Transferee Company)
And
Their respective Shareholders and Creditors

M/s EMTAC Laboratories Private Limited

M/s Vintta Labs Limited
a compan incorporated under the Companies Act,
1956 and having its registered office at 141/2 & 142,
1956 and having its registered office at 141/2 & 142,
104 Phase II, Charlapalli, R.R.District, Hyderabad500 051, Tolangana, India.
Represented by its Managing Director
Smt Harita Vasireddi
.... 2nd Petitioner/Transferee Comp.

#### NOTICE OF PETITION





50 Years of Insight

### गोदरेज प्रॉपर्टीज की नजर बिक्री बुकिंग बढ़ाने पर

रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज ने मजबूत उपभोक्ता मांग के बीच चालू वित्त वर्ष में बिक्रो बुकिंग में 20 प्रतिशत की बृद्धि हासिल करने के लिए प्रमुख शहरों में मार्च 2025 तक 21 000 करोड़ त्रपुख संरक्ष न नाच, 2023 तम 21,000 नत्रज्ञ रुपये मूल्य की आवासीय परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन पिरोजशा गोदरेज ने विश्वास जताया कि कंपनी चाल वित्त वर्ष में 27,000 करोड़ रुपये की बिक्री बुकिंग का लक्ष्य हासिल कर लेगी। बीते वित्त वर्ष (2023-24) में कंपनी की बिक्री बुकिंग 84 प्रतिशत उछाल के साथ रिकॉर्ड 22,527 करोड़ रुपये रही थी। यह पिछले वित्त वर्ष में सभी सूचीबद्ध रियल्टी कंपनियों में सर्वाधिक था।

### रिलायंस इस वर्ष चाल करेगी सौर गीगा-फैक्टरी

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में अपनी पहली सौर गीगा-फैक्टरी चालू करने की योजना बना रही है। कंपनी वर्ष 2035 तक परिचालन से शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के शा में बढ़ रही है।रिलायंस ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि उसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक सौर फोटोवोल्टिक विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण को चालू करना और 2026 तक चरणबद्ध तरीके से इसे 20 गीगावॉट तक बढ़ाना है। परंजबद्ध (तराज स इस 20 गांगाजाट (तम बढ़ाना हो सौर गींगा-फैक्टरी में एक ही स्थान पर पीवी मॉड्यूल, सेल, वेफर्स और सिल्लियां, पॉलीसिलिकॉन और ग्लास का निर्माण होगा। भाषा

### त्योहारी सीजन के मद्देनजर वाहन विनिर्माताओं ने की तैयारी

# नए वाहनों की योजना को रफ्तार

अजिल सिंह मुंबई, 11 अगस्त

र भर में चूंकि त्योहारी माहौल शुरू हो रहा है। इसलिए वाहन विनिर्माताओं ने भी बाजार में नए वाहनों की श्रृंखला उतारने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वतंत्रता दिवस करीब आने के साथ ही कई प्रमख ब्रांड उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने नवीनतम मॉडल पेश करने जा रहे हैं। महिंद्रा अपनी बहुप्रतीक्षित थार रॉक्स ला रही है, जो इसकी लोकप्रिय ऑफ्-रोडर का विशेष संस्करण है। उम्मीद है कि इसमें बेहतर ऑफ-रोड की खूबियां होंगी। थार रॉक्स को एडवेंचर प्रेमियों की कार के रूप में पेश किया गया है। इसके साथ ही सहिंद प्रतिष्ठित बीएसए गोल्ड स्टार बाइक को फिर से पेश करने की तैयारी में है, जिसमें पुराने आकर्षण का आधुनिक प्रदर्शन के

भारतीय मोटरसाइकल बाजार की अन्य दिग्गज रॉयल एनफील्ड नई क्लासिक 350 को पेश करने की तैयारी कर रही है। अपने सदाबहार डिजाइन और मजबूती के लिए प्रसिद्ध क्लासिक 350 मोटरसाइकल प्रेमियों के बीच पसंदीदा रही है और इस नए संस्करण में



स्वतंत्रता दिवस करीब आने के साथ ही कई प्रमुख ब्रांड उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने नवीनतम मॉडल पेश करने जा रहे हैं।

मौजूदा अपग्रेड के साथ रेट्रो आकर्षण का संयोजन होने का वाटा किया गया है। इस महीने की शुरुआत में टाटा मोटर्स ने मध्य स्तर की एसयूवी श्रेणी में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी कवं उतारकर सुर्खियां बटोरीं थीं। उम्मीद की जा रही है कि यह मॉडल मध्य स्तर वाली एसयवी श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करेगा और धारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। इस महीने की शुरुआत में रॉयल एनफील्ड ने गुरिल्ला 450 पेश की थी, जो एडवेंचर के शौकीनों के लिए जाइन किया गया नया दमदार मॉडल

एमजी मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए तीसरे इलेक्ट्रिक वाहन का ऐलान किया है। सितंबर के मध्य में आने वाला यह नया मॉडल - विंडसर क्लाउड ईवी प्लेटफॉर्म पर आधारित है। एमजी ने रियर सीट का शानदार पैकेज पेश किया है, जो इस बात का संकेत है कि यह ईवी आराम और तकनीक को प्राथमिकता देगा जो बांड़ के प्रीमियम स्थान के अनुरूप होगा। उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि

नए मॉडल पेश करने की ये ताबडतोड योजनाएं इस्तेमाल और नवाचार के लिए उत्सुक गतिशील बाजार को दर्शाती है।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के निदेशक (इक्विटी शोध) रघुनंदन एनएल ने कहा कि त्योहारी सीजन से पहले सामहिक पेशकश हर बार का रझान है। उन्होंने कहा 'इस अवधि के दौरान इस तरह की पेशकरों असामान्य नहीं हैं और साल-दर-साल लगातार सामने आती रहती हैं। हालांकि हाल ही में महत्वपूर्ण मॉडल पेश किए गए हैं, लेकिन इस साल जून से अगस्त या सितंबर तक पेश किए गए मॉडलों की कुल संख्या पिछले साल की तुलना में बहुत अलग नहीं है। हाल में पेश किए गए ज्यादातर वाहन सामान्य हैं, जिनमें टाटा कर्व और महिंद्रा एक्सयूवी 3 एक्सओ जैसे कुछेक सार्थक वाहनों को छोड़कर कोई बहुत बड़ा फेर-बदल करने वाला मॉडल नहीं है।

त्योहारी सीजन के करीब आने की वजह से उपभोक्ता सभी श्रेणियों में कई नए मॉडलों की उम्मीद कर सकते हैं।

### इस त्योहारी सीजन में तेज डिलिवरी पर ध्यान

इस त्योहारी सीजन में परंपरागत ई-कॉमर्स कंपनियों की तुलना में तीव्र डिलिवरी बाजी मार सकती है। टीमलीज की रिपोर्ट के अनुसार आगामी त्योहारी सीजन के दौरान ई-कॉमर्स उद्योग की बिकी में 35 प्रतिशत का इजाफा होने वाला है। हालांकि इस बात का पता नहीं

चल पाया है कि इस 35 प्रतिशत में से क्विक कॉमर्स कंपनियों की कितनी बिक्री रहेगी, लेकिन प्रमुख डिलिवरी साबेदार जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं, उससे मजबूत वृद्धि का संकेत मिलता है।

फ्लिपकार्ट की 'मिनट्स' की शुरुआत की वजह से भी क्विक कॉमर्स श्रेणी में तेजी आई है। अक्टूबर में अपने भावी प्रमुख सेल कार्यक्रम - बिग बिलियन डेज 2024 से पहले कंपनी कृथित तौर पर सभी प्रमख शहरों में लगभग 100 डार्क स्टोर खोलने की योजना बना रही है। ब्लिंकडट की योजना साल

2026 के अंत तक डार्क स्टोर संख्या 2.000 तक करने की है। फिलहाल यह संख्या 639 है। कंपनी ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में ही 113 डार्क स्टोर जोडे



हैं और इस बात की उम्मीद है कि ब्लिंकइट इस त्योहारी सीजन से पहले सितंबर तिमाही में भी इतनी ही

संख्या में स्टोर शुरू करेगी। जून में जेप्टो ने मार्च 2025 तक डार्क स्टोर की संख्या बढ़ाकर 700 तक करने की योजना का ऐलान किया था। वर्तमान में यह संख्या 350 है। इसे स्तर तक पहुंचने के लिए इसे हर तिमाही में लगभग 80

स्टोर जोड़ने होंगे। शिपरॉकेट, ईकॉम एक्सप्रेस और एक्सप्रेसबीज जैसे डिलिवरी साझेदारी तथा लॉजिस्टिक्स एक्सप्रसम्बाज जस डिलिबरा साझेदारी तथा लॉजिस्टिक्स यूनिकॉर्न भी तीव्र डिलिबरी की पूर्ति करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए शिपरॉकेट ने दिल्ली-एनसीआर, बेंग्लूर, मुंबई, चेन्नई, केरल, हैदराबाद और पुणे सहित प्रमुख शहरों में शिपर्सिट क्विक सेवा की शुरुआत की है। यह सेवा अगले 30 दिनों में कई शहरों में शुरू की जाएगी।

### हाइब्रिड कारों को मिलती रहेगी पंजीकरण कर से छट

दीपक पटेल और वीरेंद्र सिंह रावत नई दिल्ली/लखनऊ, 11 अगस्त

रविवार को भारत की प्रमुख कार विनिर्माताओं के साथ एक घंटे तक चली बैठक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्लग इन और हाइब्रिड कारों पर मिलने वाली पंजीकरण कर छूट वापस लेने की उसकी कोई योजना नहीं है।

विजन में मौजूद सरकार और उद्योग के सूत्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनीज कुमार सिंह ने कंपनियों को बताया कि प्लग इन और हाइब्रिड कारों को प्रोत्साहन का मकसूद पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों की बिक्री कम करनी है न कि इलेक्ट्रिक वाहनों की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा, 'पेट्रोल-डीजल वाली कार के बदले ग्राहक हाइब्रिड कार खरीदेगा।'

बीते 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड और

प्लग इन कारों पर 8 से 10 फीसदी तक लगने वाले पंजीकरण कर को माफ करने का आदेश दिया था।इससे इन कारों की ऑन रोड़ कीमतों में 4 लाख रुपये तक की कमी आई। बैठक में 8 कंपनियों-टाटा मोटर्स, हांडै किआ, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, मारुति सुजूकी, टोयोटा होंडा और बजाज के प्रतिनिधि मौजूद थे।

हाडा आर बजाज के प्रातानाध माजूद था बैठक के दौरान टाटा मोटर्स, ह्युंडै, कि आ और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा ने 5 जुलाई के आदेश का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि भारत के सबसे बड़े कार बाजारों में से एक उत्तर प्रदेश में उभरते इलेक्टिक कार उद्योग को पूरे ध्यान और समर्थन की जरूरत है। उन्होंने चिंता जताई कि इस वक्त प्लग इन और हाइब्रिड कारों को प्रोत्साहित करने से इलेक्टिक कार खंड पर भारी अस-प्रतेगा। सूत्रों ने बताया कि इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कुछ अन्य देशों का उदाहरण दिया, जहां इलेक्ट्रिक कारों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

### हाइब्रिड कारें बन रहीं पसंदीदा विकल्पः लैंबोर्गिनी

**दीपक पटेल** नई दिल्ली, 11 अगस्त

ग्राहक अब इलेक्टिक कारों के मुकाबले हाइब्रिड कारों को तरजीह रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसके प्रदर्शन में कभी गिरावट नहीं आएगी। इटली की सुपर लक्जरी कार बनाने वाली कंपनी लैंबोर्गिनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

कंपनी के क्षेत्रीय निदेशक प्राप्ता का प्राप्ता । निप्ताक (एशिया-प्रशांत) फ्रांसेस्को स्कार्डाओनी ने कहा कि हाइब्रिड कार दोनों ईंधन विकल्पों (पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक) के साथ दोनों श्रेणियों में बेहतरीन पेशकश करते हैं। उन्होंने कहा पंजीकरण कर अथवा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में किसी तरह की कटौती होने से इस श्रेणी को लाभ मिलेगा। पिछले साल

दिसंबर में पहली प्लग इन हाइब्रिड सुपर कार रेवुल्तो पेश करने वाली हतालवी कार कंपनी ने शुक्रवार को रुस एसई पेश की।

# यात्री वाहन बिक्री स्थिर रहने के आसार

सोहिनी दास मुंबई, 11 अगस्त

इस वित्त वर्ष में अब तक सुस्त वृद्धि की राह पर रहने वाली यात्री वाहन बिक्री के वित्त वर्ष 2024-25 का समापन स्थिरता के साथ किए जाने की संभावना है। हालांकि ओईएम आगामी त्योहारी सीजन में बिक्री को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन विश्लेषकों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 25 में यात्री वाहन बिक्री में कुल वृद्धि 0.8 प्रतिशत या इसके आसपास सपाट रहेगी।

ारा सोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रबंध निदेशक शैलेश चंदा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि साल का समापन यात्री वाहनों की खुदरा विक्री में पिछले साल की 42 लाख (अब तक की सर्वाधिक) के मुकाबले दो से तीन प्रतिशत की कुल बढ़त के साथ होगा। चंदा का कहना है कि साल की

दूसरी छमाही में त्योहारी सीजन की वजह से वृद्धि देखने को मिलेगी। अभी तक वाहन बिकी को प्रभावित वाले किसी भी व्यापक



### वित्त वर्ष 25 में सपाट रहेगी बिक्री!

■ पिछले साल 42 लाख रही थी यात्री वाहन बिकी

■ ओईएम ने वित्त वर्ष 24 की तुलना में 2 से 3 प्रतिशत वृद्धि

आर्थिक कारक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, चाहे वह जीडीपी वृद्धि के अनुमान हों, व्याज दरें हों या मुद्रास्फीति हो। उन्होंने कहा, 'अच्छे मॉनसून की धारणा से ग्रामीण मांग वापस आ गई है।डीलरों के पास पूछताछ भी स्थिर है।'

चंदा का कहना है कि वास्तविक रूप से पिछले साल की 42 लाख रहने का अनुमान जताया **=** विश्लेषकों को लगता है कि

0.8 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर रहेगी वृद्धि दर बिक्री के मुकाबले साल 2024-25 में सालाना आधार पर 2 से 3

प्रतिशत की वृद्धि संभव है। उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'इस वित्त वर्ष में वाहन बिकी वृद्धि का भार दूसरी छमाही पर रहेगा क्योंकि पहली छमाही मोचे तौर पर सपाट रही है। भले ही वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही में बिक्री में

प्रतिशत की वृद्धि हो, लेकिन कुल वार्षिक बिक्री वृद्धि करीब पांच प्रतिशत या उसके आसपास रहेगी।

जैटो डायनमिक्स के अध्यक्ष और निदेशक रवि भाटिया ने कहा, जैटो डायनमिक्स के आंकडों से साफ पता चलता है कि महामारी के सुधार हुआ लेकिन अब वाहन बाजार में मंदी का रुख है। वित्त वर्ष 2023 में सालाना आधार पर 26.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के बाद हमने बड़ी गिरावट देखी है। वित्त वर्ष 2024 में यह वृद्धि घटकर 8.7 प्रतिशत हो गई जबकि अनुमान संकेत दे रहे हैं कि वित्त वर्ष 2025 में केवल 0.8 प्रतिशत की वृद्धि होगी।'

& रागा। बाजार अग्रणी मारुति का मानना है कि त्योहारी सीजन में काफी संभावनाएं हैं। कंपनी के वरिष्ठ मार्केटिंग अधिकारी पार्थ बनर्जी ने कहा कि हमने पहली तिमाही में सबसे अधिक कुल विक्री दर्ज की है जो कंपनी के इतिहास में पहली बार है। आगामी त्योहारों से नए अवसरों की संभावनाएं हैं। महिंद्रा ऐंड महिंद्रा का मानना है कि एसयवी सेगमेंट में मध्य से ऊंचे अंक में वृद्धि होगी।

### एआई आने से कारोबारों का साइबर जोखिम बढ़ा : कैस्परस्काई

**आर्टिफिशल इंटेलिजेंस** (एआई) को तेजी से अपनाने से वृद्धि को बढ़ावा मिला है, लेकिन इसके साथ साइबर अपराधियों के लिए भी परिष्कृत हमलों में एआई का दुरुपयोग करने के रास्ते खुल गए हैं। वैश्विक साइवर सुरक्षा और डिजिटल प्राइवेसी कंपनी केस्परस्काई ने इन जोखिमों का जिक्र करते हुए कहा है कि उसने नए युग की चुनीतियों का सामना कूरने के लिए व्यवसायों के सक्रिय साइवर सुरक्षा में निवेश करने की जरूरत पर प्रकाश डाला है। कैस्परस्काई ने कहा कि वह अपने उत्पादों में एआई का समावेश कर रही है।

### सार्वजनिक सूचना

ा पंचाल कर ना स्थापित है, जो पहले हैं जो उठ (पूर्वण) मूर्चन में प्राप्त के स्थाप के स्याप के स्थाप क

होगा। उपयुक्त संदर्भित अनुसूची र सहकारी आवास सौसापटी र नामक इमारत की तीसरी मॉर्ड

र्द-नीलामी बिकी नोटिस कलकता उच्च न्यायालय में मूल अधिकार क्षेत्र मूल पक्ष मी.पी. संख्या 245/1985 निम्नलिखित के मामले में: बंगाल पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड (परिसमापन में)

(परिसमापन म)
पाननीव उच्च न्यावावव, करकराज द्वारा ३ कुलाई, 2024 को चांति आदेश के उनुसरण
मैं अंगते (चरित्तमान में) के परिसर संख्या 108, प्रधम तत विविद्या ए. 'पुरस
अव्यादिन , तिय सारार एस्टेट, टी. एसी यस्ति रोड, सारी, मुंबरं, मासाराष्ट्र – 400018
(अ55 वर्ष घोटे, निर्मित क्षेत्र) में मिलत परित को विकार के लिए संचारित उपतिया में।
"जैसा है, जबां है और जो भी है वाही है" के आधार पर वं-नीलामी द्वारा प्रस्ताव
आर्थित विकार जी हैं।
वै-नीलामी में भार तेने के लिए स्थान, पिरीक्षण को तिथि और ईएमडी का विवरण

Hendraic 6:			
कंपनी की अचल संपत्ति	निरीक्षण	शुरुआती	''आधिकारिक
∕ संपत्ति का स्थान ∕	की तिथि	मृल्य	परिसमापक, उच्च
पता (परिसमापन में)			न्यायालय,
101 ( 41(0.1141 1)			कलकता'' के पक्ष
			में जमा धरोहर राशि
परिसर क्रमांक 108,	20	₹.	20%
प्रथम तल, बिल्डिंग 'ए',	अगस्त,	3,06,25,000/-	
'पुनम अपार्टमेंट', शिव	2024		
सागर एस्टेट, डॉ. एनी	को		
बसंत रोड, वर्ली, मुंबई,	11.00		
महाराष्ट्र - 400018	बजे पूर्वा.		
(875 वर्ग फीट, निर्मित	से 04.00		
क्षेत्र)	बजे अप.		

नोट:- 1. ईएमडी राशि (च्याज मुक्त) पोर्टल पर उपलब्ध तरीकों से जमा की जानी चाहि ई-नीलामी में अनुरोध और भागीदारी तथा इंएमडी के ऑनलाइन जमा करने की ऑ तिथि 27 अगस्त. 2024 (17.00 बजे) तक है।

ई-नीलामी 28 अगस्त, 2024 (सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे) को वेबसा https://olauction.enivida.com के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बोलीदाताओं को वेबसाइट https://olauction.enivida.com के माध्य

अपने ऑनलाइन प्रस्ताय प्रस्तुत करने चाहिए। इच्छूक खरीदारों को वेबसाइट www.olkolkata.in और https://olar इन्युज खरावरा का पंजसाहर www.birkoiraini आर https://biract tion.enivida.com के माध्यम से विस्तृत जानकारी, नियम और शर्ते एकत्र करः चाहिए और नीचे दिए गए संपकों से भी मदद ले सकते हैं (10.00 बजे से 18.00 क

1), 011-49606060 2), 9355030618 3), 9355030604 4) 8448788981 5) 9355030608 6) 9355030620

हस्ता./-(इकबाल हुसैन अंसारी आधिकारिक परिसमाप उच्च न्यायालय, कलकर 9, पुराना पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, 5वीं मंजिल, कोलकाता - 700 00

### SURAJ PRODUCTS LIMITED

CIN No.: L26942OR19911PLC002865

Regd. Office: At-Barpali, PO: Kesaramal, Rajgangpur, Dist.: Sundargarh, Odisha - 770017

Emall: suproduct@gmall.com, Web: www.surajproducts.com

BOARD MEETING OUTCOME
ors of the Company at their meeting held on Saturday, the 10th day of August, 2024 at the registered office of the Company ha

proved the following:

Board has approved the unaudited financial results of the Company for the quarter ended 30.06,2024.

Board has approved the United States of the Company for the quarter ended 30.06,2024.

Board has approved the Directors Report & Report on Corporate Governance for the financial year ended 31° March, 2024.

Board has approved the Notice convening the 33° Annual General Meeting to be held on Friday the 27° day of September, 2024.

Board has stated the date for Book Closure. The Register of Members and Share Transfer Book of the Company will be closed from September 20, 2024 to September 27, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Dividend & Annual General Meeting.

Board has taperoved the appointment of Mis LLM-Panda & Associates, Rourfela, Odisha as the scuttinizer for e-voting process to be conducted for the purpose of the 33° Annual General Meeting.

Board has fixed the CLI-off date (record date) as 20° day of September, 2024 for the purpose of e-voting.

The e-voting will commence from Tuesday, the 24° September, 2024 at 9:00 AM and will end on Thursday, the 26° September, 2024 at 5:00 PM.

Place: Barpali Date: 10<sup>th</sup> day of August, 2024

By order of the Board

A.N.Khatua Company Secretary

				₹ in La			
			Quarter ended				
SI. No.	Particulars Particulars	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023			
140.		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited			
1	Total Income from Operations	9,269,47	9,238,36	11,140.1			
2	Net profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	844.46	809.92	1,142.7			
3	Net profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary item)	844.46	809.92	1,142.7			
4	Net profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and or Extraordinary items)	670.78	582.20	839.0			
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	670,78	584.46	839,0			
6	Equity Share Capital	1,140.00	1,140.00	1,140.0			
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)						
	Basic (Rs.):	5.88	5.11	7.3			
	Diluted (Rs.):	5.88	5.11	7.3			

tes:
The above is an extract of the detailed forms of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEB (Listing Collegations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formst of the Quarterly Financial Results are available on the Classified Companies (Financial Results are available on the Companies (Financial Results are available on the Companies (Financial Results are available on the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. The source results have been prepared in accordance with the Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. The above results were reviewed by the Audit Committee and threafter approved by the Board of Directors at their meetings held on 10°

By Order of the Board Y.K.Dalmia Managing Director (DIN-00605908) Place: Barpali Date: August 10, 2024

### 'बिग फोर' फर्में कर रहीं टेक आर्किटेक्ट की नियुक्ति

राघव अग्रवाल नई दिल्ली. ११ अगस्त

वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) की संख्या में तेजी के बीच 'बिग फोर' (पेशेवर सेवा नेटवर्क की चार प्रमुख कंपनियां) देश में टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट की नियुक्तियों में तेजी ला रही हैं, जो नीसीसी की सहायता करने वाले प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका प्रबंधन करते हैं।

वर्तमान में 1.600 से ज्यादा जीसीसी के साथ भारत विदेशी कंपनियों के लिए इन केंद्रों की स्थापना के मामले में शीर्ष गंतव्य स्वापना के मामल में शोप गतव्य बन गया है। ईवाई के अनुसार तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और अपेक्षाकृत सस्ते मानव संसाधन की उपलब्धता की वजह से यह संख्या साल 2030 तक 2,400 तक पहंचने की उम्मीद है।

डेलॉयट इंडिया की चीफ पीपल ऐंड एक्सपीरियंस अधिकारी दीप्ति सागर ने कहा, 'वे (टेक आर्किटेक्ट्स) कारोबारी जरूरतों को तकनीकी खाके में तब्दील करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि समाधान कारोबारी लक्ष्यों के अनुरूप हों, जिसमें व्यापकता, सुरक्षा और दक्षता पर जोर दिया जाता है।'

# ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗିରଫ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦେଶୀ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ



ବାଲିଗୁଡା: କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଜଣେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗିରଫ ହେବା ସହିତ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ବାଲିଗୁଡା ଏନ୍ଏସି କଟାରିସାହିର ରାଧେଶ୍ୟାମ କାରିଜିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ୬.୨୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର୍ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ

ଯାଜପୁର/ବରୀ (ଅରବିନ୍ଦ ରାଉତ):

ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧିନୟ ଜଳ

ନିଷ୍କାସନ ଉପଖଣ୍ଡ ଯାଜପୁର ଷକ୍ଷରୁ

ସନା ।ଟ ନାଳର ପୂନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ

ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲଘୁଚା

ବିଭାଗର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଉପଖଣ୍ଡ

ପାରଳାଖେମୁଞି :

ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୮ତମ ପାଳନ

ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜାଦି କା ଅମ୍ରିତ

ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସର ରେ

ଅଗଷ୍ଟ ୩ ରୁ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହର

ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ

ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡାଇବା ପାଇଁ

କେନ୍ଦ୍ ସରକାର ଆହ୍ରାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏ ପରିପେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ଆଦେଶ କ୍ରମେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଂଘ

ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ

ପରିବାରକୁ ମାଗଣାରେ ଜାତୀୟ

ଭାରତର

୮୫୩୯୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ସହିତ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରଯାଇଛି ବାଲିଗୁଡା ତହସିଲଦାର ତଥା ଏକ୍ଜିକ୍ୟଟିଭ୍ମାଜିଷ୍ଟେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ । କିଛି ଦିନ

ସପନାପାଟ ନାଳର ପ୍ରନରୁଦ୍ଧାର

ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଛି । ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ସମ୍ଭୁନାଥ ମଲ୍ଲିକ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ଜେନାଙ୍କ

କୁମାର

ତତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ

ହେଉଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଫଳରେ

ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମିରୁ ଜଳ

ଜାତୀୟ ପତାକା ବତରଣ କାଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠତ

ବ୍ୟନ କରାଯିବ ।

ପରିପେକ୍ଷୀ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଠାରେ

ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା

ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଡ଼.ଗୁଣନିଧି ନାୟକଙ୍କ

ଅଧକ୍ଷରେ ଅନୁଷିତ ବିତରଣ

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟ ବୃକ୍ ୯୦

ହଜାର ପତାକା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ପତାକା ଜିଲ୍ଲାର ସମୟ ସ୍ୱୟଂ

ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ

ଘର ଘର ବୁଲି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ

ଅଧ୍କାରୀ

କାର୍ଯ୍ୟନିବାହୀ

ହେବ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହରରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ୍ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା । ଗତକାଲି ରାତିରେ ସବ ଇନିସପେକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହିତ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଗୁଁ ବାଲିଗୁଡା ସହରରେ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।

ନିଷ୍କାସନ ହେବା ସହିତ ସଂପୃଷ୍ଠି ଅଞ୍ଚଳ

ଜଳ ବନ୍ଦି ରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ । ଏପରି

କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ

ନିଆଯାଇଥିବାରୁ,ଏହାକୁ ଦେଖି

ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ଦେବା ସହ କୃତଜ୍ୱତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଜାତୀୟ ପତାକା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ

ଏହି ବଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ

ଟିମନ ଦାରା, ଜିଲ୍ଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି

ସଂଯୋଜକ, ଶ୍ରୀମତୀ ମନସ୍ଥିତା

ପାତ୍ର, ଡିପିଏ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା

ସଂସ୍କୃତ ଅଧିକାରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଅଚ୍ଚିନା

କୁମାରୀ ମଙ୍ଗରାଜ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ

ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ

ଗୁରୁମାଇ ଓ ସମୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା

ଗୋଷିର ମହିଳା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧମ

ପ୍ରତିନିଧ୍ ପ୍ରମୁଖ ପତାକା ବ୍ୟନ

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

### ବୁହୁପୁର(ଶ୍ରୀବୟ): ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତପ୍ରତାର ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ବିଦେଶୀ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସହ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡିତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ନତୁବା ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ଓ ପରମ୍ପରା

ଦୃଢ଼ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥି ସମ୍ପକିରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏଥିସହିତ ପୋଲାଭରମ ପକଳ୍ପ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପାନ୍ତରେ ବିଶେଷ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ

ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ଥାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତି ନିଆଗଲା। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉକ୍ଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ତରଫରୁ ବାରୟାର ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ

ବିତାଡିତ କରାଯାଉ:ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ

ପୋଲାଭରମ ସମେତ ଉପାତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଧାନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏଥି ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଉକ୍ଳ ସଜିଳନୀ ସରକାରଙ୍କୁ ପତ୍ରାଳାପ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀପଲ୍ଲବ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତି ନିଆଗଲା । ଉକ୍ଳ ଆଶୁମ ସଭା କକ୍ଷରେ ଅନୃଷିତ ସଭାରେ ସଭାପତି ଡ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଉପସଭାପତି ଡ଼ ବନମାଳୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲାବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ଦିନବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀପଲଲବ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଉପସ୍ଥାନା କରି ଆଲୋଚନା ପ୍ସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାରୟରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରାଯାଇ ଥିଲା ।

ସତୁରୀରୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱି ଗ୍ରାମର ହଜାର ପ୍ରଭୃତି ବିପର୍ଶ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ବୋଲି ବାସ୍ତୁହରା ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ

କରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କଏ କେଉଠ କରବେ

ଭୁବନେଶୃର: ରାଜ୍ୟୟରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ କେ.ଭି ସିଂହଦେଓ। କଟକରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଉପମଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କଳାହାଣି-ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼-ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକା କୋରାପୁଟ-ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗ୍ୟ, ନବରଙ୍ଗପୁର-କୃଷଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଗଞ୍ଜାମ-ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ବରଗଡ଼- ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଗଜପତି–ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ବାଲେଶ୍ୱର– କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଣେଶ ରାମସିଂ

ଖୁଷ୍ଟିଆ, ମାଲକାନଗିରି-ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ, କନ୍ଧମାଳ-ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ରାୟଗଡ଼ାରେ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କରିବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ୧ ୫ଟି ଜିଲାରେ ଉପମଖ୍ୟ ମନ୍ତୀଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲାବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗୁହଣ କରିବେ ସେହିପରି ୧୫ ଟି ଜିଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

### ସମାଜସେବୀ ଓ ଡି.ଟି.ପି ଅପରେଟର ଶିରିଶଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ

କଟକ(ଅଜୟ ଦାସ ):ରାଜାବଗିଚା ଲେବର କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳର ଶିରିଶ ମହାପାତ୍ର (କୁନା ବାବୁ)୍ରତିଦିନ ପରି ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବାଦାମବାଡ଼ିସ୍ଥିତ ତ୍ରିନାଥ ବଜାରରେ ତାଙ୍କର ଥିବା ଡି.ଟି.ପି କେନ୍ଦ୍ରକ୍ର ଆସୁଥିବାବେଳେ ହଟାତ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରି ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିହା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ୫୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରେ ଲେବର



ବାଦାମବାଡ଼ି , କଲୋନୀ, ଝାଞ୍ଜିରୀମଙ୍ଗଳା ତ୍ରିନାଥ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ମହଲରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ ସୟାଦପତ୍ରକୁ ସୟାଦ ଡ଼ିଟିପି କରି ପଠାଉଥିଲେ । ପରଲୋକରେ କଟକ ଜିଲା

ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିଅନ ପକ୍ଷର ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ଅଜୟ କୁମାର ଦାସ, ବରିଷ ସଦସ୍ୟ ବାବୁଲା ପାତ୍ର , ଅନୁପମ ଭାରତ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରେଶ ଦାଶ ଏବଂ ସାହିର ସରୋଜ ମିଶ୍ର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୁମୁଖ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଖାନନଗର ଶ୍ମଶାନ ଠାରେ ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସଂନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏକ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସ୍ୱଞ୍ଜିକ ମହାପତ୍ର (ଚିଣ୍ଟୁ) ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବଡ ଭାଇ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଭଣଜା ସୟିତ ମିଶ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

#### ଗୁରୁ ଦକ୍ଷଣା ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ନଦୀ ରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ୫ ରୁ ୭ ଗୋଟି ପଂଚାୟତ ର ଲୋକ ସମ୍ଭୁନାଥ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଜଳସମ୍ପଦ ଜଳ ବନ୍ଦି ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ । ଅଭୟ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ



ସେବକମାନେ ଯୋଗଦେଇ

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରଚାଳନା କରିଥିଲେ ।

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବୃକ ଭବାନୀପୃର ପଂଚାୟତର ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍କୟଂ ସେବା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ସହ ଧର୍ମ ଜାଗରଣ ସମନ୍ୟଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ, ଧର୍ମଶାଳା ଖଣ୍ଡ ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା, ମାନସ ମଲ୍ଲିକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରମୁଖ,ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଲୋକ ସଭା ସଂଯୋଜକ କାୂ୍ରରଣ ଦାସ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପଞିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂଯୋଜକ, ପ୍ରତାପ କୁମାର ସିଂହ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବରାଳ, ଆନନ୍ଦ ଦଳାଇ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକ, ଗୌରାଙ୍ଗ ପରିଡା, ପରମାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ହଳଧର ପାଡ଼ୀ,

ନବେଦତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ୍ୱେଣସାର ପ୍ଲେସ ପରିସରର<u>େ</u>

ମହାନଗର ନିଗମର ପୃଥମ ମେୟର ନିବେଦିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାଷିକୀ ଶନିବାର ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ସିଡିଏ ସେକ୍କର ୯ ରେ ଏକ ଉଦ୍ୟାନକୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍କୋଚନ ଚାରଣ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତୀ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ

ଅନୁଷିତ ଶୁଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ସଭାରେ ବାଚୟତି ସୁରମା ପାଢୀ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ସାଂସଦ ଭର୍ତୁହରି ମହତାବ, ମେୟର ସୁବାଷ ସିଂହ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଦିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି

ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସୁରଣିକା ଉନ୍ନୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା I ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପିତାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପମ୍ରଖ ସହରର ବହୁ ବିଶିଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବାହୁରେ ଏକ

### SURAJ PRODUCTS LIMITED

CIN No.: L26942OR1991PLC002865

Regd. Office: At- Barpali, PO: Kesaramal, Rajgangpur, Dist.: Sundargarh, Odisha - 770017 Email: suproduct@gmail.com, Web: www.surajproducts.com

BOARD MEETING OUTCOME Board of Directors of the Company at their meeting held on Saturday, the 10th day of August, 2024 at the registered office of the Company have

approved the following: Board has approved the unaudited financial results of the Company for the quarter ended 30.06.2024. Board has approved the Directors Report & Report on Corporate Governance for the financial year ended 31\* March, 2024.

Board has approved the Notice convening the 33rd Annual General Meeting to be held on Friday the 27th day of September, 2024. Board has fixed the date for Book Closure. The Register of Members and Share Transfer Book of the Company will be closed from September

20, 2024 to September 27, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Dividend & Annual General Meeting. Board has approved the appointment of M/s L.N.Panda & Associates, Rourkela, Odisha as the scrutinizer for e-voting process to be

conducted for the purpose of the 33rd Annual General Meeting. Board has fixed the Cut-off date (record date) as 20th day of September, 2024 for the purpose of e-voting.

The e-voting will commence from Tuesday, the 24th September, 2024 at 9:00 AM and will end on Thursday, the 26th September, 2024 at

Place: Barpali Date: 10th day of August, 2024

By order of the Board Sd/-A.N.Khatua Company Secretary EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024

# ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଷାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାନୁଷାନରେ ଅଭିଭାବକ ପାଠଚକ୍ର ସନ୍ନିଳନୀ



କେନ୍ଦୁଝର: ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ରୀଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାନୁଷାନ, ରୋଡ଼ ପାଠଚକ୍ର ସଜିଳନୀ ଅନୁଷିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ୧ମିନିଟ୍ ନୀରବ ଧାନ କରାଗଲା । ପରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ

ଭାବିପ୍ରିୟା ସାହୁ ମାତୃବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ଦ୍ରିକାମୟୀ ଦାଶ ଦୁର୍ଗା ଞୋତ୍ର ପଠନ କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଅଜୟ କୁମାର ପଲେଇ ସାବିତ୍ରୀ ପଠନ କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ୱଲୋଚନ ମହାନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ

ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଅଜୟ କୁମାର ପଲେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ତାଙ୍ଗ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ, ପାଣିକ, ମାନସିକ, ଚୈତିକ ଓ ଆଧାମିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ତତ୍ସହିତ ମା ଶିଶୁର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ, ମାଆର ଭାବନା,

ଅନୁଭବ, ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ପିଲା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସୂକ୍ଷ୍କ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ପରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଗଠନ କରାଇ ଶିଶୁଟି, ଯିଏ କି ଏକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଶୀଳ ଆତ୍ୟା ତାର ବିକାଶ କୁ ସୟବ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପାଧକ୍ଷ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ୧ମିନିଟ୍ ଧାନ ସହ ସଭାକାଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କମିକରି। ଯୋଗଦାନ କରି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମୟିତ କରିଥିଲେ

₹ in Lacs Quarter ended SI. **Particulars** 30.06.2024 31.03.2024 30.06.2023 No. (Unaudited) (Audited) (Unaudited) 9,269.47 9,238.36 Total Income from Operations 11,140.13 Net profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 844.46 1,142.73 Net profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary item) 1,142.73 670.78 582.20 839.00 Net profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(Loss) for the period 670.78 584.46 839.00 after tax) and other Comprehensive Income (after tax) 1,140.00 1,140.00 1,140.00 **Equity Share Capital** Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) 5.88 7.36 Basic (Rs.): 5.11 Diluted (Rs.) 5.88 5.11 7.36

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website under "Investor Relations" section at www.surajproducts.com and on the Stock Exchange website (www.bseindia.com).

The Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review of the results for the quarter ended June 30, 2024. These results have been prepared in accordance with the Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meetings held on 10th

> By Order of the Board Sd/-Y.K.Dalmia Managing Director (DIN-00605908)

Place: Barpali Date: August 10, 2024

